



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 17 नवम्बर, 2020

कार्तिक 26, 1942 शक सम्वत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

संख्या 4/775-2020-4/123(फतेहपुर)-2014

लखनऊ, 17 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-322

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149-94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी/2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र०, लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा०नि०आ०/2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा०नि०आ०/2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद फतेहपुर की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/286-2015-4/123(फतेहपुर)/2014, दिनांक 04 फरवरी, 2015 में विकास खण्ड देवमई की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्वारा स्थापित करती हूँ।

जनपद—फतेहपुर

सारिणी

क्र०सं०	वर्तमान स्थिति			क्र०सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देवमई	अकबरपुर नसीरपुर	अकबरपुर नसीरपुर	1	देवमई	—	राजस्व ग्राम अकबरपुर नसीरपुर को ग्राम पंचायत कलाना में सम्मिलित किया गया।
			कस्बाकोड़ा				नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 2850/नौ-1-2019-52/टी0ए0/दिनांक 31.12.2019 के द्वारा नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद में समाहित।
2	देवमई	शाहजहांपुर खालसा	शाहजहांपुर खालसा	2	देवमई	—	नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 2850/नौ-1-2019-52/टी0ए0/दिनांक 31.12.2019 के द्वारा नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद में समाहित।
			शाहजहांपुर आईमा				नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 2850/नौ-1-2019-52/टी0ए0/दिनांक 31.12.2019 के द्वारा नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद में समाहित।
3	देवमई	इब्राहिमपुर टांडा	इब्राहिमपुर टांडा	3	देवमई	—	नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 2850/नौ-1-2019-52/टी0ए0/दिनांक 31.12.2019 के द्वारा नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद में समाहित।
4	देवमई	कलाना	कलाना	4	देवमई	कलाना	कलाना
							अकबरपुर नसीरपुर
5	देवमई	खदरा	खदरा	5	देवमई	खदरा	खदरा
6	देवमई	गंगचौली बुजुर्ग	गंगचौली बुजुर्ग	6	देवमई	गंगचौली बुजुर्ग	गंगचौली बुजुर्ग
7	देवमई	हाजीपुर	हाजीपुर	7	देवमई	हाजीपुर	हाजीपुर
			होलापुर				होलापुर
8	देवमई	गंगचौली खुर्द	गंगचौली खुर्द	8	देवमई	गंगचौली खुर्द	गंगचौली खुर्द
9	देवमई	रहसूपुर	रहसूपुर	9	देवमई	रहसूपुर	रहसूपुर
10	देवमई	शादीपुर	शादीपुर	10	देवमई	शादीपुर	शादीपुर
11	देवमई	कौड़िया	कौड़िया	11	देवमई	कौड़िया	कौड़िया
	देवमई		छिऊली		देवमई		छिऊली
12	देवमई	गलाथा	गलाथा	12	देवमई	गलाथा	गलाथा
13	देवमई	सुजावलपुर	सुजावलपुर	13	देवमई	सुजावलपुर	सुजावलपुर
14	देवमई	भैसौली	भैसौली	14	देवमई	भैसौली	भैसौली
15	देवमई	कंशाही	कंशाही	15	देवमई	कंशाही	कंशाही
16	देवमई	रूसी	रूसी	16	देवमई	रूसी	रूसी
17	देवमई	मिराई	मिराई	17	देवमई	मिराई	मिराई
18	देवमई	खरौली	खरौली	18	देवमई	खरौली	खरौली
19	देवमई	परसदेपुर	परसदेपुर	19	देवमई	परसदेपुर	परसदेपुर
20	देवमई	टिकरा	टिकरा	20	देवमई	टिकरा	टिकरा
21	देवमई	देवमयी	देवमयी	21	देवमई	देवमयी	देवमयी
22	देवमई	दुबेपुर	दुबेपुर	22	देवमई	दुबेपुर	दुबेपुर
	देवमई		धमौली		देवमई		धमौली
23	देवमई	डारीखुर्द	डारीखुर्द	23	देवमई	डारीखुर्द	डारीखुर्द
	देवमई		ककरैहा		देवमई		ककरैहा

क्र०सं०	वर्तमान स्थिति			क्र०सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	6	7	8
24	देवमई	डारीबुजुर्ग	डारीबुजुर्ग	24	देवमई	डारीबुजुर्ग	डारीबुजुर्ग
25	देवमई	लाला बक्सरा	लाला बक्सरा	25	देवमई	लाला बक्सरा	लाला बक्सरा
26	देवमई	कंशमीरीपुर	कंशमीरीपुर	26	देवमई	कंशमीरीपुर	कंशमीरीपुर
27	देवमई	बिजौली	बिजौली	27	देवमई	बिजौली	बिजौली
28	देवमई	मुरारपुर	मुरारपुर	28	देवमई	मुरारपुर	मुरारपुर
	देवमई		दिलावलपुर		देवमई		दिलावलपुर
29	देवमई	पधारा	पधारा	29	देवमई	पधारा	पधारा
	देवमई		रसूलपुर		देवमई		रसूलपुर
30	देवमई	करचलपुर	करचलपुर	30	देवमई	करचलपुर	करचलपुर
	देवमई		बसावनपुर		देवमई		बसावनपुर
31	देवमई	मायाराम खेड़ा	मायाराम खेड़ा	31	देवमई	मायाराम खेड़ा	मायाराम खेड़ा
	देवमई		डेलेमऊ		देवमई		डेलेमऊ
32	देवमई	डुण्डरा	डुण्डरा	32	देवमई	डुण्डरा	डुण्डरा
33	देवमई	अकबराबाद	अकबराबाद	33	देवमई	अकबराबाद	अकबराबाद
34	देवमई	बिजुरी	बिजुरी	34	देवमई	बिजुरी	बिजुरी
35	देवमई	करनपुर	करनपुर	35	देवमई	करनपुर	करनपुर
36	देवमई	कृपालपुर बिन्दा	कृपालपुर बिन्दा	36	देवमई	कृपालपुर बिन्दा	कृपालपुर बिन्दा
37	देवमई	मथुरापुर	मथुरापुर	37	देवमई	मथुरापुर	मथुरापुर
38	देवमई	आलमपुर	आलमपुर	38	देवमई	आलमपुर	आलमपुर
39	देवमई	पहाड़ीपुर	पहाड़ीपुर	39	देवमई	पहाड़ीपुर	पहाड़ीपुर
	देवमई		गांग		देवमई		गांग
40	देवमई	नहरामऊ	नहरामऊ	40	देवमई	नहरामऊ	नहरामऊ
	देवमई		मोइददीनपुर		देवमई		मोइददीनपुर
41	देवमई	मुसाफा	मुसाफा	41	देवमई	मुसाफा	मुसाफा
	देवमई		चकपता		देवमई		चकपता
42	देवमई	जरारा	जरारा	42	देवमई	जरारा	जरारा
	देवमई		चकलालपुर		देवमई		चकलालपुर
	देवमई		गौरी अरंज		देवमई		गौरी अरंज
43	देवमई	ईसेपुर	ईसेपुर	43	देवमई	ईसेपुर	ईसेपुर
	देवमई		भुलभुलियापुर		देवमई		भुलभुलियापुर
44	देवमई	माधवपुर	माधवपुर	44	देवमई	माधवपुर	माधवपुर
	देवमई		बहादुरपुर कोटरा		देवमई		बहादुरपुर कोटरा
	देवमई		भेलगांव		देवमई		भेलगांव
45	देवमई	बेता	बेता	45	देवमई	बेता	बेता
46	देवमई	सराय लंगर	सराय लंगर	46	देवमई	सराय लंगर	सराय लंगर
47	देवमई	सराय होली	सराय होली	47	देवमई	सराय होली	सराय होली
	देवमई		मकरौली		देवमई		मकरौली
	देवमई		अब्दुल्लापुर		देवमई		अब्दुल्लापुर
48	देवमई	किशुनपुर कपिली	किशुनपुर कपिली	48	देवमई	किशुनपुर कपिली	किशुनपुर कपिली
49	देवमई	मिर्जापुर मकरन्दपुर	मिर्जापुर मकरन्दपुर	49	देवमई	मिर्जापुर मकरन्दपुर	मिर्जापुर मकरन्दपुर
	देवमई		सराय बदले		देवमई		सराय बदले
	देवमई		चक पट्टी		देवमई		चक पट्टी
50	देवमई	द्वारिकापुर जट्ट	द्वारिकापुर जट्ट	50	देवमई	द्वारिकापुर जट्ट	द्वारिकापुर जट्ट
	देवमई		मलाका		देवमई		मलाका

क्र०सं०	वर्तमान स्थिति			क्र०सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	6	7	8
51	देवमई	घनश्यामपुर	घनश्यामपुर	51	देवमई	घनश्यामपुर	घनश्यामपुर
52	देवमई	जाफरपुर सिठर्रा	जाफरपुर सिठर्रा	52	देवमई	जाफरपुर सिठर्रा	जाफरपुर सिठर्रा
53	देवमई	चिल्ली	चिल्ली	53	देवमई	चिल्ली	चिल्ली
54	देवमई	जगदीशपुर	जगदीशपुर	54	देवमई	जगदीशपुर	जगदीशपुर
	देवमई		हरदासपुर		देवमई		हरदासपुर
55	देवमई	रसूलपुर बकेवर	रसूलपुर बकेवर	55	देवमई	रसूलपुर बकेवर	रसूलपुर बकेवर
56	देवमई	बरिगवां	बरिगवां	56	देवमई	बरिगवां	बरिगवां
57	देवमई	सराय बकेवर	सराय बकेवर	57	देवमई	सराय बकेवर	सराय बकेवर
58	देवमई	बकेवर बुजुर्ग	बकेवर बुजुर्ग	58	देवमई	बकेवर बुजुर्ग	बकेवर बुजुर्ग
59	देवमई	रामपुर बकेवर	रामपुर बकेवर	59	देवमई	रामपुर बकेवर	रामपुर बकेवर
	देवमई		पिपरी		देवमई		पिपरी
60	देवमई	सरायं महमूदपुर	सरायं महमूदपुर	60	देवमई	सरायं महमूदपुर	सरायं महमूदपुर
61	देवमई	जोगापुर	जोगापुर	61	देवमई	जोगापुर	जोगापुर
62	देवमई	घोरहा	घोरहा	62	देवमई	घोरहा	घोरहा
63	देवमई	गंधर्पी	गंधर्पी	63	देवमई	गंधर्पी	गंधर्पी

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/286/2015-4/123(फतेहपुर)/2014, दिनांक 04 फरवरी, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
किंजल सिंह,
निदेशक,
पंचायती राज, उ० प्र०।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 404 राजपत्र-2020-(913)-599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 6 सा० पंचायती राज-2020-(914)-132 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।